# **Jaykay Enterprises Limited**



Date: April 06, 2023

The Bombay Stock Exchange Ltd. Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort,

<u>Mumbai – 400 001</u> Scrip Code: 500306

Fax No. 022 – 22722041, 22722039, 22723132

Through: Online Filing

Sub: Newspaper Advertisement-Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulation, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulation, 2015 we are enclosing a copy of the Newspaper excerpts of the advertisement published in **THE FINANCIAL EXPRESS** (English Editions) and **JANSATTA** (Hindi Editions) on April 06, 2023.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours sincerely, For Jaykay Enterprises Limited

Abhishek Pandey Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: ACS 21958

Encls: As Above



Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur-208001 (INDIA)
Phones: +91 512 2371478 - 81, Fax: +91 512 2332665
E-mail: cs@jaykayenterprises.com, Web: www.jaykayenterprises.com

## एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनास प्राइवेट लिमिटेड पंजी. कार्यालयः 83, प्रथम तल, पूर्वी मार्ग, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057 CIN:U65993DL2016PTC291377 सार्वजनिक सुचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड, हाउसिंग फाइनांस कम्पनी ने 83. प्रथम तल, पर्वी मार्ग, नई दिल्ली-110057 से अपने पंजीकृत कार्यालय को बंद कर दिया है।

सभी संबंधितों से आग्रह है कि उक्त सचना का ध्यान रखें।

तिथि: 04 अप्रैल, 2023

कृते, एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नेशनल फर्टिलाइजुर्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)

ए-11, सैक्टर-24, नौएडा-201301 (सीआईएन: L74899DL1974G0007417) G2🐷 फोन : 0120-2412515, 2412294, फैक्स : 0120-2412397 संदर्भ संख्याः NFL/MTLS/Neem Oil/PQ/2023 दिनांकः 06.04.2023

नीम ऑयल के निर्माताओं की पूर्व-योग्यता नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ई-टेंडरिंग एवं रिवर्स ऑक्शनिंग के माध्यम से खरीद

के लिए नीम ऑयल के निर्माताओं को प्री-क्वालिफाई करना चाहती है। योग्यता मानदंड एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया वेबसाइट www.nationalfertilizers.com या www.eprocure.gov.in को देखें। परिशिष्ट / शुद्धिपत्र, यदि कोई होगा, तो उसे केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर प्रकाशित किया जाएगा। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 10.05.2023 है। मुख्य महाप्रबंधक (सामग्री)

😰 @NFL\_Kisan 👣 @nationalfertilizers 🏻 🔞 National Fertilizers Limited

भारतीय कटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. concor (भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India) अन्य महास्था एक्टबर्वा के सामने, नई विल्ली-110020 निविदा सूचना (केवल ई-टेडरिंग के माध्यम से) चार (04) वर्षों की अवधि हेतु एमएमएलपी तिही, इंदौर, मध्य प्रदेश में खाली कंटेनरों की हैंडलिंग

हेतु ऑनलाइन ई-बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा सं. CON/Area-II/TIHI/ECH/2/2023 अनुमानित लागत रु. 3,00,19,200/- (जीएसटी सहित) 04 वर्षों हेत्

06.04.2023 को 15:00 बजे से 20.04.2023 को विक्री की तिथि (आनलाइन) (16:00 बजे तक) जमा करने की अंतिम तिथि व समय 21.04.2023 को 16:00 बजे तक खलने की तिथि एवं समय 24.04.2023 को 15:30 बजे

गात्रता मापदण्ड एवं अन्य विवरण हेत् कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in www.tenderwizard.com/CCIL लॉगऑन करें। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि नियमि रूप से वेबसाइट देखें। संपूर्ण विवरण हेतु <u>www.tenderwizard.com/CCIL</u> लॉगऑन करें।

निविदा सूचना : कॉन/आईटी/70845/23/02, (केवल ई–टेंडरिंग प्रणाली) व्यरहाजसिंग (डीडब्ल्यूएच), दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) और ई-फाइलिंग (ईटीएमएस, सीसीएलएस, डीटीएमएस अ ईएमबी) के लिए बेब-सर्वर/एप्लीकेशन सर्वर हेतु डार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस के ऑन-प्रिमाइसेंस अपग्रेजेशन औन-साइट सपोर्ट, एक साल की बारंटी, बार साल की एएमसी एवं एटीएस सहायता के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित है

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड

निविदा दस्तावेज केवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से डाउनलोड किया जा सकता है महीने का सफलतापूर्वक संवालन), एक साल की वारटी, पहला साल एटीएस और एएम और एटीएस की अवधि के लिए 4 साल। ₹10,00,00 (१ दस लाख केवल) ई-भूगतान के द्वारा रा,000.00 सभी कर एव प्रभारों सहित ई-मुगतान के द्वारा दस्तावेज का मल्या र४,०००,०० एवं लागू कर (अप्रतिवेध) ई-भगतान के द्वारा 08.04.2023 11:00 बजे से 28.04.2023 (17:00 बजे तक)

कार्यकारी निर्देशक (पीएण्डएस)/एरिया-11 एवं 11

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम) (A Navratna Undertaking of Govt. of India)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (आईएफबी) (केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से बीएलसीएस कंटेनर प्लैट वैगन्स में किटमेंट के लिए 840 मिमी ढावामीटर 25 एमटी एक्सल लोड खील सेट्स के 7200 नगों की आयुर्ति हेतु प्रतिचित, अनुमर्वी एवं विश्वसनीय निर्माताओं से 'दो पैकेट' टेंडरिंग प्रणाली में ऑनलाइन खली/क्लोबल ई-निविदा विस्तृत विवरण

CON/T/Wheel Set-7200/e-65605/2023 कुल अनुमानित लागत T. 241,49,88,000/-बोली सुरक्षित राशि (धरोहर राशि) ह. 10,00,000,00 अथवा अमेरिकी डॉलर 12,101,00 पूर्व-बोली बैठक 13 अप्रैल, 2023 को 11:30 क्रजे आईएसटी पर वीडिवो कॉन्ग्रेंस के मध्यम से। लिंक शेयर करने हेत् हमया ईमेल आईसै:- akmishra@concorindia.com पर 13 अप्रैल, 2023 को 10:00 बजे ता

निविदा बिक्री की अवधि (ऑनलाइन) 06 और. 2023 (16.00 को) से 27 और. 2023 (15.00 को) तक निविदा जमा करने की तिथि व समय 27 अप्रैल 2023 को 16.00 बजे तक- भारतीय मानक समय तकनीकी बोली खुलने की तिथि व समय | 28 अप्रैल 2023 को 11.30 बजे – भारतीय मानक समय खुलने का स्थान कार्यालय कार्यकारी निदेशक / पी एंड एस / क्षेत्र-111 में 11:30 वर्ण-आईएसटी, दिनांक 28 अप्रैल. 2023 हे कटेनर कार्परिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्षेत्र-III, एनएसआईसी, एमडीबीपी बिल्डिंग, तुतीय तल, ओख हरिट्यल एस्टेट, एनएसअईसी ओखला मेटो स्टेशन के सामने, नई दिल्ली–110020 (भारत)

पत्राचार हेतु पता कार्यकारी निर्देशक (पी एंड एस)/क्षेत्र-III, कटेनर कार्यरेशन ऑक इंडिया तिमिटेड, क्षेत्र-III, एनएसआईसी मधीबीपी बिल्डिंग, ततीय तल, ओखला इंबल्टियल एस्टेट, एनएसआईसी ओखला मेट्रो स्टेशन के सामने नई दिल्ली-110020 (मास्त) निविदा मूल्य एवं भुगतान का तरीका रू. 1000.00 अथवा अमेरिकी खीलर 12.10 कॉनकॉर हेतु ऑनलाइन पेमेंट गेटवे

निविदा प्रक्रिया शुल्क (अप्रतिदेय) इ. 4720.00 अधवा अमेरिकी झेंलर 57.11 (जीएसटी @18% सहित) ब्रॉनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से

विलीच पानता मापदंड, समान प्रकृति के कार्य के संबंध में अनुगय, आदि, हेतु कृपया वेबसाइट www.tenderwizard.com/CCIL पर जपलबा विस्तृत निविदा सूचेना देखें। इस निविदा के लिए शुद्धि पत्र/संशोधन, यदि कोई होगा तो, केवल वेबसाइट अर्थात www.concorindia.com एवं www.eprocure.gov.in पर प्रकाशित होगा। इस संबंध में समाधार पत्रों में विज्ञापन जारी नही ईडी (पी एंड एस) / वेज-Ш

उत्कर्ष स्मॉल फाइनांस बैंक आपकी उम्मीद का खाता (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पंजीकृत कार्यालयः उत्कर्ष टावर, एनएच-31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उ.प्र.-221 105 सावजानक सूचना

निम्न गोल्ड ऋण खाता के अंतर्गत उसकी रोहतक शाखा में बैंक के पास गिरवी स्वर्णाभुषण जो अधिशेष है तथा हमारी विभिन्न सूचनाओं के बावजूद जिसे ऋणधारक द्वारा विमोचित नहीं किया गया है, की उत्कर्ष स्मॉल फाइनांस बैंक के शाखा परिसरः भू तल, बाल्मेव प्लाजा, एफ-236, दिल्ली रोड, मॉडल टाउन, रोहतक-124001, हरियाणा में 12.4.2023, बुधवार को नीलामी की जाएगी।

क्रम सं.	ऋण सं.	नाम	तिथि	ऋण की राशि	सकल वजन ( जीएमएस)
1	155079000 0006003	मनजीत सिंह	04/02/2023	₹. 264800/-	77.7
2	155079000 0006004	मनजीत सिंह	04/02/2023	₹. 235100/-	70.1
3	155079000 0006005	साहिल जैन	08/02/2023	₹. 273580/-	71
4	155079000 0006006	राजीव खुराना	08/02/2023	₹. 272860/-	70.8

नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को 11.4.2023 तक ईएमडी के रूप में रु. 52317/- की राशि का भुगतान करना होगा। बैंक को उसका कोई भी कारण बताए बिना नीलामी को वापस लेने/निरस्त/स्थिगित करने अथवा उसकी नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार है।

तिथिः 06.04.2023 शाखा प्रबंधक उत्कर्ष स्मॉल फाइनांस बैंक लि. स्थानः रोहतक

FORM NO. 5

THE DEBT RECOVERY TRIBUNAL 9/2A Pannal Lal Road Allahabad (U.P.)

SUMMONS FOR FILLING REPLY & APPEARANCE BY PUBLICATION

(Summons to the defendants through publication under section 19(3) of

No.

the Recovery of Debt Due to Bank & Financial Institution Act, 1993 Read with rules 12 and 13 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993) Original Application No. 1089 of 2022

.....Application(s) Bank of Baroda

...Defendant (s) M/s Radhika Pooja Vastu Bhandar,

1. M/s Radhika Pooja Vastu Bhandar, a Partnership firm having its place of business at 23-24, Radhapuram Chauraha, Mauza Keshopur, Manoharpur Mathura though its Partners. (Pan-AAMFR2363K).

2. Sri Ajay Vashishtha, S/o Sri Suraj Bhan Vashishtha R/o 36, Kuccha Sunaram Holigate, Mathura- 281001. (Pan- AAMPV5985H).

3. Sri Luv Vashishtha S/o Sri Suraj Bhan Vashishtha R/o 37, Kuccha


Sunaram Holigate, Mathura- 281001. (Pan- AAMPV6009Q). 4. Mr. Rukmani Devi Vashishtha, W/o Sri Ajay Vashishtha, R/o 36, Kuccha


Sunaram Holigate, Mathura- 281001. 5. Sri Banwari Lal Agarwal, S/o Sri Nath Das Agarwal, R/o 57, Holi Gate

In the above noted application, you are required to file reply in paper book form in

four sets along with documents and affidavits (if any), personally or through your duly authorized agent or legal practitioner in Tribunal, after serving copy of the same on the applicant or his counsel/duly authorized agent after publication of the summons and thereafter to appear before the tribunal on 08.05,2023 at 10:30 A.M. failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Registrar Debts Recovery Tribunal, Allahabad





प्रैस एनआईटी सं. 21 ईई (एसडीडब्ल्यू) IX (2022-23)



के माध्यम से निविदा प्राप्ति की (रु. में) अंतिम तिथि∠समय रिठाला एसपीएस में ईएंडएम उपकरणों के प्रचालन तथा छोटे-मोटे रखरखाव के लिये स्टॉफ के 11.15

इस संदर्भ में सभी नियमों एवं शर्तों के साथ एनआईटी के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी ( अभि. दीपक रोहिल्ला कार्यपालक अभियंता (एसडीडब्ल्यू) IX विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 06(2023-2024) ''कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दुरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें''

डंडियन बेंक Indian Bank ALLAHABAD **∆** इलाहाबाद

आंचलिक कार्यालय, ५५ दि माल, मेरठ केन्ट

अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के सम्बन्ध में सार्वजनिक सचना

निम्नलिखित उधारकर्ता / प्रतिभृति को वित्तीय अस्थियों का प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एवं प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभतहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत (डिमांड नोटिस) मांग सूचना भेजे गये थे। ये डिमांड नोटिस बिना वितरण के वापस आ गये है 🖊 अथवा इनकी पावती हमें नहीं मिली है। आपको एतदवारा सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित धनराशि तथा ब्याज का भूगतान नोटिस की तिथि के 60 दिन के अन्दर करें अन्यथा बैंक उक्त अधिनियम की धारा 13(4) कें तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए बंधक सम्पत्ति परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण बिना अन्य सुचना / नोटिस के कर लेगा।

ऋणी /गारंटर का नाम व पता एवं खाता सं0	प्रतिभूमि / सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तारीख
<ol> <li>श्रीमती शालू पत्नी श्री अनुज कुमार संगल (ऋणी और बंधककर्ता) वर्तमान पताः माता कॉलोनी (शास्त्री नगर), शामली –247776</li> <li>श्री अनुज कुमार संगल पुत्र श्री बिजेंद्र कुमार (सह—ऋणी) वर्तमान पताः माता कॉलोनी (शास्त्री नगर), शामली –247776</li> </ol>	एक आवासीय मकान स्थित माता कॉलोनी (शास्त्री नगर), शामली, क्षेत्रफल 41.83 वर्ग मीटर, बिक्री विलेख सं. 443 दिनांक 11.01. 2018 उप पंजीयक शामली में पंजीकृत,	एन पी ए की तारीख 28.02.2023 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस मेजने की तारीख— 22.03.2023
3. श्रीमती दीपशिखा पत्नी श्री प्रवेश राणा (गारंटर) पताः गांव— डाहर, मेरठ 4. श्री मनोज गाँड पुत्र राम सनेही गाँड (गारंटर) पताः श्रवण रंग रोगन वाली गली, मलूक शाह, गांधी चौक, शामली—247776 ऋण खाता संख्या 50465870609 इंडियन बैंक (पूर्व इलाहाबाद बैंक), शामली शाखा	उत्तर: 15'-0'' / सडक 11'6'' बौड़ी, दक्षिण: 15'-0'' / बीरमती का मकान। मालिक / शीर्षक धारकः श्रीमती शालू पत्नी अनुज कुमार संगल निवासी माता कॉलोनी (शास्त्री नगर), शामली-	नापसी की तारीख- 01.04.2023 नोटिस के अनुसार देव राशि
<ol> <li>श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा (ऋणी/बंधककर्ता) पताः 1. मकान नं. 36, गढ़ रोड, अम्बेडकर नगर, मेरठ। 2. मकान नं. सी-80/8, पहली मंजिल, एफ-32, स्कीम नंबर-11, जागृति विहार एक्सटेंशन, मेरठ।</li> <li>श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री सुरेश बंद शर्मा (सह-ऋणी/बंधककर्ता) पताः 1. मकान नं. एल-632, इस्माइल इंटर कॉलेज, एल-1 शास्त्री नगर, मेरठ।</li> <li>मकान नं. सी-80/8, पहली मंजिल, एफ-32, स्कीम नंबर-11, जागृति विहार एक्सटेंशन, मेरठ।</li> <li>श्री अनुज पुत्र श्री संतोष (गारंटर) निवासी मकान नं-79 अंबेडकरनगर मेरठ।</li> <li>ऋण खाता संख्या 6673541496, 6812780110, 6889755037, 7141877037 इंडियन बैंक शास्त्री नगर शाखा</li> </ol>	मंजिल पर (छत के अधिकार के बिना) एफ—32 टॉवर में, क्षेत्रफल 32.95 वर्ग मीटर, स्थित जागृति विहार एक्सटेंशन, स्कीम नंबर—11, तहसील और जिला मेरठ, सीमायें:— पूर्वः उक्त फ्लैट का दरवाजा, फिर सीढ़ियां, पश्चिमः खुला आकाश और भूतल पर रास्ता, उत्तरः खुला आकाश और भूतल पर रास्ता, दक्षिणः फ्लैट नंबर—7 मालिक / शीर्षक धारकः श्रीमती नेहा शर्मा पत्नी श्री मनोज शर्मा और श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री सुरेश चंद शर्मा दोनों निवासी मकान नं सी—80/8 पड़ली	एन पी ए की तारीख 15.03.2023 रिजस्टर्ड पोस्ट द्वारा डिमांड नोटिस भेजने की तारीख— 27.03.2023 डाक विभाग द्वारा डिमांड नोटिस (रिजस्टर्ड) वापनी की तारीख— 01.04.2023 नोटिस के अनुसार देय राशि क्0 11,71,922.00 + दिनांक 24.03.2023 से ब्याज एवं जन्य खर्ज जादि
दिनांक—05.04.2023	स्थानः मेरठ प्रा	धिकृत अधिकारी



चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड Chola कॉर्पोरेट कार्यालय : प्रथम तल, 'डेयर हाउस', नं. 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001. शाखा कार्यालय : 1ला तथा 2सरा तल, प्लॉट नं. 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना

### नियम 8(1) के तहत जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत मैसर्स चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट

एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नातें तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे कॉलम (बी) में सुचित नाम वाले कर्जदारों से नीचे कॉलम (डी) में सूचित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पनर्भगतान करने को कहते हुए कॉलम (सी) में निर्दिष्ट तिथियों पर मांग सचनाएं जारी की थीं

कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नियमें के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) तथा उसके तहत निर्मित नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहां नीचे कॉलम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक सम्पत्तियों पर कॉलम (एफ) में वर्णित सम्बन्धित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों को तथा जनसामान्य को एतद्वारा नीचे कॉलम (ई) में वर्णित सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसा कोई संव्यवहार कॉलम (डी) में वर्णित राशि एवं ब्याज सहित अन्य प्रभारों के लिए मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के

प्रतिभृतिकरण अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पूर्व समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित सम्पूर्ण बकायों का भगतान करके प्रतिभृत आस्ति विमोचित कर सकते हैं।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया सांश	कब्जाकृत सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]
1.	ऋण खाता संख्या संख्या X0HEEDL00001665153  1. रितेश शुक्ला, पताः मकान नं ए 053 मोड़ता पार्ट 4, गाजियाबाद, गाजियाबाद – 201002  इसके अलावाः फ्लैट नंबर ए-402, संचार रेजीडेंसी, राज नगर एक्सटेंशन मोड़ता, गाजीबाद उ.प्र. 201003  2. आशा शुक्ला, पताः मकान नं ए 053 मोड़ता पार्ट 4, गाजियाबाद, गाजियाबाद – 201002  3. उपेंद्र शुक्ला, पताः मकान नं ए 053 मोड़ता पार्ट 4, गाजियाबाद, गाजियाबाद – 201002  इसके अलावाः फ्लैट नंबर ए-402, संचार रेजीडेंसी, राज नगर एक्सटेंशन मोड़ता, गाजीबाद उ.प्र. 201003	12-06-2021	रु. ४०,86,893.34 तिथि ०९-०६-2021 तक	फ्लैट नंबर ए -053 की संपत्ति का समस्त भाग, 5 वीं मंजिल पर बिना छत के अधिकार के, सुपर एरिया माप 1500.08 वर्ग फीट, टॉवर-ए, खसरा नंबर 240 में मीडोज विस्टा में ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ग्राम मोड़ता, परगना जलालाबाद, तहसील और जिला- गाजियाबाद उ.प्र. में स्थित।	)23

# JOINT PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC IN RESPECT OF

# TTI ENTERPRISE LIMITED

Corporate Identification Number: L67120WB1981PLC033771; Registered Office: Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata-700001, West Bengal, India; Contact Number: +033-30229197; Website: www.ttienterprises.com; Email Address: tti1711@gmail.com.

(As per paragraph 64 of Master Direction - Non-Banking Financial Company - Non-Systemically Important Non-Deposit taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 ("RBI Master Direction")]

Kashyapi Advisors LLP ('Deemed PAC 1') and Pragnay Advisors LLP ('Deemed PAC 2') (hereinafter collectively called as 'Proposed Transferors' / 'Deemed PAC's') are holding 51,43,803 (Fifty-One Lakhs Forty-Three Thousand Eight Hundred and Three) representing 20.25% (Twenty Point Two-Five Percent) equity shares of Rs.10.00/- (Rupees Ten Only) ('Equity Shares') each of TTI Enterprise Limited (the 'Company'), being a non-banking financial company registered with Reserve Bank of India ('RBI') since December 23, 2000 bearing registration number 'B.05.02515', having its registered office situated at Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata -700001, West Bengal, India;

The Proposed Transferors propose to sell their Equity shareholding, i.e., 51,43,803 (Fifty-One Lakhs Forty-Three Thousand Eight Hundred and Three) Equity Shares (being 40.89% of the paid up share capital of the Company), to Mr. V S Ranganathan ('Proposed Transferee 1/ Promoter Acquirer 1'), Mrs. Bindu K C ('Proposed Transferee 2/ Promoter Acquirer 2') and Mrs. Kanakavally Prathapan ('Proposed Transferee 3/ Promoter Acquirer 3') (hereinafter referred to as 'Proposed Transferees' / 'Promoter Acquirers'), as the Proposed Transferors do not wish to continue with the ownership of the Company.

Proposed Transferees/ Promoter Acquirers

Date: Wednesday, April 05, 2023

Place: Mumbal

Mr. V S Ranganathan, an Indian resident, aged 61 years, holding Director Identification Number (DIN) 02786224, is a senior level executive with more than 26 years of experience in management and administration level, with more than 10 years of experience in the NBFC Sector;

Mrs. Bindu KC, an Indian resident, aged 48 years, does not hold any directorship in any company or LLP and has more than 16 years of experience acting in the capacity of customer service manager with corporate agency and customer service in charge with an insurance broker; and

Mrs. Kanakavally Prathapan Karumanthra, an Indian Resident, aged 63 years, holding DIN 06946755, has completed her Bachelor of Arts and is the proprietress of Lifeline Wellness World and Dr. Kanaka's Beauty Clinics and Academy.

In accordance with applicable SEBI Regulations, the Promoter Acquirers had made an open offer to the public shareholders of the Company for 26% and in this regard, the public shareholders have tendered 2,42% shares under the open offer.

Accordingly, the Promoter Acquirers propose to acquire, in aggregate, 20.25%\* of the paid up share capital of the Company and intend to acquire the Shares and Voting Rights (as provided hereinbelow) of the Company;

Ms. Mridula Mukundan (Managing Director ), Mr. V S Ranganathan ('Proposed Transferee 1/ Promoter Acquirer 1') (Executive Director), Mr. Asir Raja Selvan (Non-Executive - Independent Director), Ms. Payal Bafna (Non-Executive Independent Director ), Ms. Sonal Atal (Non-Executive - Independent Director) are the existing Directors on the Board of Target Company (collectively referred to as 'Board of Directors') and there will be no change in the management of the Company pursuant to the underlying transaction;

Any person(s) including any creditor(s) or depositor(s) having any objection to the proposed change in ownership of the Company may write to TTI Enterprise Limited at its registered office situated at Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata-700001, West Bengal, India and also to the concerned Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision, Reserve Bank of India, at Kolkata within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice;

On expiry of the aforesaid period of 30 (Thirty) days, the Proposed Transferors will relinquish their complete ownership over the Company and the promoters acquirers, i.e., the Proposed Transferees, will take over the complete ownership of the Company;

The above notice is being given pursuant to the Paragraph 64 of the RBI Master Direction read with Reserve Bank of India's approval letter bearing reference number 'KOL.DoS.RSG.No./S2828/08.02.400/2022-23' dated Tuesday, March 21, 2023, and other relevant regulations jointly by the Proposed Transferors and Proposed Transferees of the Company

 Issued for and on behalf of TTI Enterprise Limited (Company), Kashyapi Advisors LLP and Pragnay Advisors LLP (Proposed) Transferors / Deemed PAC's mentioned above) and Mr. V S Ranganathan, Mrs. Bindu K C and Mrs. Kanakavally Prathapan Karumanthra (Proposed Transferees / Promoter Acquirers mentioned above) \*In addition to the existing 90,81,725 equity shares representing 35.75% held by Promoter Acquirers.

> Ms. Sonal Atal Independent Director (DIN: 09308801) For Proposed Transferees/ Promoters Acquirers

For TTI Enterprise Limited

Mr. V S Ranganathan (DIN: 02786224)



# वंडर होम फाइनेस लिमिटेड

कॉरपोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपुर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता बंहर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा क्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत और सुरक्षा के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 ( 12 ) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्याज ( प्रवर्तन ) नियम 2002, ने एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लिखन उधारकर्ताओं को उक्तगोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखत राशि का भगतान करने का आह्वान किया गया था। कर्जदारों द्वारा राशि का भगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी ने उक्तनियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्तअधिनियम की धारा 13( 4 ) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है ।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बंडर होम फाइनेंस लिमिटेड शाखा के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि नीचे दी गई है और उसपर ब्याज, लागत आदि।

क्र.	ऋणी का नाम	नोटिस की	बंधक सम्पत्ति	कड़ने की
सं.	व खाता संख्या	दिनांक व राशि	का विवरण	तारीख व प्रकार
1.	श्री जितेन्द्र कुमार ( आवेदक एवं बंधककर्ता ), श्री राम लतूर ( सह-आवेदक एवं बंधककर्ता ) श्रीमती सुमन रैदास ( सह-आवेदक ) LN29013TU21-22006685 LN29013BT21-22006080	03 जनवरी 2023 १16,61,284/- बकाया 03 जनवरी 2023 आगे के व्याज, लागतें व शुल्क	प्लॉट नंबर 49, ब्रजराज कॉलोनी नयापुरा, सिविल लाइन, कोटा, राजस्थान-324001 लगभग 161.39 वर्गगज।	सांकेतिक कव्जा दिनांक 31 मार्च 2023

JKE.

फोन नंबर +91 512 2371478-81 \*फैक्स: +91 512 2399854

वेबसाइट : www.jaykayenterprises.com, ई-मेल : cs@jaykayenterprises.com

# पोस्टल बैलट सूचना

कंपनी के सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम्

2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और धारा 110, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, संख्या 33/2020 दिनांक 28 सितंबर, 2020, संख्या 39/2020, दिनांक 31 दिसंबर, 2020, संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, संख्या 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर, 2021, संख्या 03/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 11/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 ('एमसीए परिपत्र'), और अन्य लागू प्रावधान, जिसमें तत्कालीन लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित धारा 102 के प्रावधानों के तहत व्याख्यात्मक विवरण सहित पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 13 फरवरी, 2023 में निर्दिष्ट संकल्प पर पोस्टल बैलेट प्रक्रिया (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से सदस्यों की स्वीकृति

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, पोस्टल बैलेट की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') या कंपनी के पास पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jaykayenterprises.com, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। कंपनी अपने सदस्यों को पोस्टल बैलेट की सूचना में निर्धारित प्रस्तावों पर अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। कंपनी ने सदस्यों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। इस संबंध में विस्तृत निर्देश पोस्टल बैलेट की सूचना का हिस्सा होंगे। जिन सदस्यों के ई-मेल पते डीपी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें:

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए- कृपया अन्य अपेक्षित फॉर्म (कंपनी की वेबसाइट यानी www.jaykayenterprises.com पर उपलब्ध) के साथ शेयरधारक द्वारा स्व-सत्यापित निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 नीचे दिए गए पते पर कंपनी के आरटीए को प्रदान करें-

अलंकित असाइनमेंटस लिमिटेड 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110 055 दरभाष संख्या 011-42541234

2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनिवार्य है।

बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता./-(अभिषेक पाण्डेय) कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी सदस्यता संख्या एसीएस-21958

दिनांकः 05.04.2023

स्थान : कानपुर

POST OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18 (12) OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

# RAJATH FINANCE LIMITED

Registered Office: 208-215, Star Plaza, Phulchhab Chowk, Rajkot, Gujarat - 360001, India. Website: https://rajathfinance.in/ | Tel. No: 0281-2454 271 | Email: rajathfin@hotmail.com Corporate Identification Number: L65910GJ1984PLC007486

Open Offer for acquisition of up to 10,40,000 (Ten Lakh Forty Thousand) fully paid-up Equity Shares of face value of ₹10/- each ("Equity Shares") representing 26.00% of Fully Paid-up Equity Share Capital, from the Public Shareholders of Rajath Finance Limited ("Target Company") by "9Anjum Tech LLP": (hereinafter referred as "Acquirer") together with Gautam K. Shah (PAC-1), Vishwanathan V. Iyer (PAC-2), Shubhra T. Singh (PAC-3) and Beena M. Shah (PAC-4) (PAC-1, PAC-2, PAC-3 and PAC-4 hereinafter collectively referred to as "PACs") at a price of ₹13.11 (Rupees Thirteen and Paisa Eleven only) per Equity Share ("Offer") pursuant to and in compliance with Regulation 3(1) and Regulation 4 of Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI SAST Regulations").

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Public Announcement") is being issued by Vivro Financial Services Private Limited, ("Manager to the Offer"), on behalf of the Acquirer and PACs pursuant to Regulation 18(12) of the SEBI SAST Regulations. The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was published on October 07, 2022 in the Financial Express (English- All editions), Jansatta (Hindi -All editions), Financial Express (Gujarati - Ahmedabad edition) and Navshakti (Regional-Marathi edition) ("Newspapers"). The Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the DPS was published on March 15, 2023 in the same Newspapers.

Capitalized terms used but not defined in this Post Offer Advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the Letter of Offer dated March 03, 2023.

Sr. No. Particulars		Details		
1 Name of the Target Company:		Rajath Finance Limited		
Name of the Acquirer(s)/ Pac(s)     Shah (PAC-1), Vishwanathan V. ly		9Anium Tech LLP" ("Acquirer") together with Gautam K Shah (PAC-1), Vishwanathan V. Iyer (PAC-2), Shubhra T Singh (PAC-3) and Beena M. Shah (PAC-4).		
3.	Name of the Manager to the Offer	Vivro Financial Services Private Limited		
4. Name of the Registrar to the Offer		Link Intime India Private Limited		
	Offer Details:			
5.	a. Date of Opening of the Offer	Friday, March 17, 2023		
	b. Date of Closing of the Offer	Monday, April 03, 2023		
6.	Date of Payment of Consideration	Thursday, April 20, 2023*		

\*Since no equity shares were tendered in the Open Offer, payment of consideration to shareholders is not applicable.

**Details of Acquisition** 

Sr. No. **Particulars** Proposed in the Offer Document Actuals ₹13.11 per Equity Share Offer Price (in ₹) ₹13.11 per Equity Share 7.1 Aggregate number of Equity Shares tendered 10.40.000 NIL 10,40,000 Aggregate number of Equity Shares accepted NIL Size of the Offer (Number of Equity Shares ₹ 1,36,34,400/-NIL multiplied by Offer Price per Equity Share) Shareholding of the Acquirer and the PAC before Agreements / Public Announcement · Number of Equity Shares 7.5 NIL NIL a. Acquirer(s) b. PACs NIL NIL · % of Fully Diluted Equity Share Capital NIL NIL Equity Shares Acquired by way of Share Purchase Agreement dated September 29, 2022 7.6 Number 27.90,555 27.90,555 . % of Fully Diluted Equity Share Capital 69.76% 69.76% Equity Shares Acquired by way of Open Offer . Number of Equity Shares acquired NIL 10,40,000 . % of Fully Diluted Equity Share Capital 26.00% NIL Shares acquired after Detailed Public Statement · Number of Equity Shares acquired NIL NIL · Price of the shares acquired NIL NIL NIL . % of Fully Diluted Equity Share Capital NIL Post offer shareholding of Acquirers and PACs Number of Equity Shares 38,30,555 27.90.555\* a. Acquirer 7.9 b. PACs Nil . % of Fully Diluted Equity Share Capital a. Acquirer 95.76% 69.76% b. PACs Pre & Post offer shareholding of the Public Pre Offer Post Offer Pre Offer | Post Offer 12,09,445 1,69,445 12.09.445 12,09,445 7.10 Number . % of Fully Diluted Equity Share Capital 30.24 4.24% 30.24 30.24

\*The Acquirer will consummate the transaction pursuant to Share Purchase Agreement in accordance with the provisions of Regulation 22(1) of SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification as Promoter of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31(A)(10) of SEBI (LODR) Regulations.

8. The Acquirer and its Partners' severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI SAST Regulations.

A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the registered office of

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER AND PACS VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED

VIVRO

the Target Company.

Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India. | Tel No.: 079-4040 4242 | CIN: U67120GJ1996PTC029182 Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net SEBI Reg. No. MB/INM000010122 | Contact Person: Shivam Patel / Jay Shah

For and on behalf of the	Acquirer and the PACs:			
Sd/- 9Anium Tech LLP Name: Gautam K. Shah DIN - 06379806	(PAC - 1)	Sd/- Vishwanathan V. Iyer (PAC – 2) DIN – 07550254 Designated Partner	Sd/- Shubhra T. Singh (PAC – 3) DIN - 09194475 Designated Partner	Sd/- Beena M. Shah (PAC – 4) DIN – 07049813 Partner

Place: Mumbai Date: April 05, 2023



www.readwhere.com

Date: 28.03.2023

Lucknow

जेके इंटरप्राइजेज लिमिटेड सीआईएन: L99999UP1961PLC001187

पंजीकृत कार्यालयः कमला टॉवर, कानपुर - 208 001



# Citi opens branch in GIFT City

AMERICAN LENDER CITIBANK has joined peers in having a branch in GIFT City, India's only international financial services centre. It will offer corporate clients long and short-term financing solutions within the same time zone, as per an official statement.

## Religare inks pact to buy MyInsuranceClub

RELIGARE ENTERPRISES ON Wednesday said it has signed a share purchase pact for the acquisition of MyInsuranceClub, an insurance web aggregator, from iGear Holdings, part of The Indian Express Group. The proposed acquisition is in line with Group's strategy to further growth of insurance business and emerge as a

stronger insurance player, Religare said. **FE BUREAU** 

CIN: L99999UP1961PLC001187

Regd. Office: Kamla Tower, Kanpur 208 001

Ph. No. +91 512 2371478-81 \* Fax: +91 512 2399854

FOURTH QUARTER

# Karnataka Bank, CUB post single-digit loan growth

**PIYUSH SHUKLA** Mumbai, April 5

PRIVATE SECTOR LENDERS Karnataka Bank and City Union Bank on Wednesday posted single-digit loan growth for Q4FY23 while YES Bank reported a 11.3% yearon-year rise, much below the industry average. As per provisional data filed

by the banks with the exchanges, Karnataka Bank's total advances rose 6% yearon-year (YoY) to ₹61,326.98 crore as on March 31, the slowest pace of growth among other banks who posted Q4FY23 provisional data on Wednesday.

Karnataka Bank said though its retail lending portfolio has grown at nearly 12% YoY to ₹30,863.4 crore as on March-end, it took a conscious decision to not grow large corporate book on account of low yields and high competition from peers, which could have hurt the bank's net interest margin (NIM).

The large corporate book of Karnataka Bank stood at ₹12,367.9 crore, lower 15.2% on a sequential basis but up 5.1% on a yearly basis. The bank's total deposits rose 8.7% YoY to ₹87,362.56 crore. Current account and savings

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that pursuant to Section 108and Section 110 of the Companies Act,

2013. (the "Act"), read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. General

Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 22/2020 dated June 15, 2020, No.

33/2020 dated September 28, 2020, No. 39/2020, December 31, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No.

10/2021 dated June 23, 2021, No. 20/2021 dated December 8, 2021 and No.03/2022 dated May 5, 2022, No.

11/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (the "MCA Circulars"), and other

applicable provisions, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, the

Company will seek approval of the Members by way of Postal Ballot Process (Remote E-Voting) in respect of the

Resolutions as specified in the Postal Ballot Notice dated February 13, 2023 along with explanatory statement there

In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice of Postal Ballot will be sent only by electronic mode to those

Members whose e-mail addresses are registered with the Depository Participant ('DP') or the Company. These

documents will also be available on the website of the Company at www.jaykayenterprises.com, on website of

Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) at www.evotingindia.com and on the website of Bombay Stock

For Physical shareholders- Please provide prescribed form ISR-1 alongwith other requisite form (available on

For Demat shareholders - Please update your email id and mobile no. with your respective depository

JOINT PUBLIC NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC IN RESPECT OF

TTI ENTERPRISE LIMITED

Corporate Identification Number: L67120WB1981PLC033771:

Registered Office: Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata-700001, West Bengal, India;

Contact Number: +033-30229197; Website: www.ttienterprises.com; Email Address: tti1711@gmail.com.

[As per paragraph 64 of Master Direction - Non-Banking Financial Company - Non-Systemically Important Non-Deposit

taking Company (Reserve Bank) Directions, 2016 ("RBI Master Direction")]

Kashyapi Advisors LLP ('Deemed PAC 1') and Pragnay Advisors LLP ('Deemed PAC 2') (hereinafter collectively called as

'Proposed Transferors' / 'Deemed PAC's') are holding 51,43,803 (Fifty-One Lakhs Forty-Three Thousand Eight Hundred and

Three) representing 20.25% (Twenty Point Two-Five Percent) equity shares of Rs. 10.00/- (Rupees Ten Only) ('Equity Shares') each of TTI Enterprise Limited (the 'Company'), being a non-banking financial company registered with Reserve Bank of India

('RBF') since December 23, 2000 bearing registration number 'B.05.02515', having its registered office situated at Room No-

The Proposed Transferors propose to sell their Equity shareholding, i.e., 51,43,803 (Fifty-One Lakhs Forty-Three Thousand

Eight Hundred and Three) Equity Shares (being 40.89% of the paid up share capital of the Company), to Mr. V S Ranganathan

('Proposed Transferee 1/ Promoter Acquirer 1'), Mrs. Bindu K C ('Proposed Transferee 2/ Promoter Acquirer 2') and Mrs.

Kanakavally Prathapan ("Proposed Transferee 3/ Promoter Acquirer 3") (hereinafter referred to as "Proposed Transferees")

Mr. V S Ranganathan, an Indian resident, aged 61 years, holding Director Identification Number (DIN) 02786224, is a

senior level executive with more than 26 years of experience in management and administration level, with more than 10

Mrs. Bindu KC, an Indian resident, aged 48 years, does not hold any directorship in any company or LLP and has more

than 16 years of experience acting in the capacity of customer service manager with corporate agency and customer

Mrs. Kanakavally Prathapan Karumanthra, an Indian Resident, aged 63 years, holding DIN 06946755, has completed

her Bachelor of Arts and is the proprietress of Lifeline Wellness World and Dr. Kanaka's Beauty Clinics and Academy.

In accordance with applicable SEBI Regulations, the Promoter Acquirers had made an open offer to the public shareholders of

Accordingly, the Promoter Acquirers propose to acquire, in aggregate, 20.25%\* of the paid up share capital of the Company

Ms. Mridula Mukundan (Managing Director ), Mr. V S Ranganathan ('Proposed Transferee 1/ Promoter Acquirer 1')

(Executive Director), Mr. Asir Raja Selvan (Non-Executive - Independent Director), Ms. Payal Bafna (Non-Executive

Independent Director ), Ms. Sonal Atal. (Non-Executive - Independent Director) are the existing Directors on the Board of Target

Company (collectively referred to as 'Board of Directors') and there will be no change in the management of the Company

Any person(s) including any creditor(s) or depositor(s) having any objection to the proposed change in ownership of the

Company may write to TTI Enterprise Limited at its registered office situated at Room No-822, 8th Floor, 4 Synagogue Street,

Kolkata-700001, West Bengal, India and also to the concerned Regional Office of the Department of Non-Banking Supervision.

On expiry of the aforesaid period of 30 (Thirty) days, the Proposed Transferors will relinquish their complete ownership over the

Company and the promoters acquirers, i.e., the Proposed Transferees, will take over the complete ownership of the Company;

The above notice is being given pursuant to the Paragraph 64 of the RBI Master Direction read with Reserve Bank of India's

approval letter bearing reference number 'KOL.DoS.RSG.No./S2828/08.02.400/2022-23' dated Tuesday, March 21, 2023.

Transferors / Deemed PAC's mentioned above) and Mr. V S Ranganathan, Mrs. Bindu K C and Mrs. Kanakavally Prathapan

Issued for and on behalf of TTI Enterprise Limited (Company), Kashyapi Advisors LLP and Pragnay Advisors LLP (Proposed)

the Company for 26% and in this regard, the public shareholders have tendered 2.42% shares under the open offer.

and intend to acquire the Shares and Voting Rights (as provided hereinbelow) of the Company;

Reserve Bank of India, at Kolkata within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice;

Karumanthra (Proposed Transferees / Promoter Acquirers mentioned above)

and other relevant regulations jointly by the Proposed Transferors and Proposed Transferees of the Company.

\*In addition to the existing 90,81,725 equity shares representing 35.75% held by Promoter Acquirers.

'Promoter Acquirers'), as the Proposed Transferors do not wish to continue with the ownership of the Company.

Alankit Assignments Ltd. 205-208, Anarkali Complex, Jhandelwalan Extension, New Delhi-110 055

the website of Company i.e. www.jaykayenterprises.com),duly self-attested by the shareholder(s) to

to as required under the provisions of section 102 read with section 110 of the Companies Act, 2013

are requested to register their e-mail addresses by following the instructions below:

Company's RTA at their address mentioned below-

participant (DP) which is mandatory while remote e-voting.

822, 8th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata -700001, West Bengal, India:

Proposed Transferees/ Promoter Acquirers

pursuant to the underlying transaction;

Date: Wednesday, April 05, 2023

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

years of experience in the NBFC Sector:

service in charge with an insurance broker; and

Tel. No.011-4254 1234

Place: Kanpur

Date: 05.04.2023

**Jaykay Enterprises Limited** 

website www.jaykayenterprises.com E-mail: cs@jaykayenterprises.com

**Q4 PROVISIONAL DATA** 

Total loans (₹ crore)	Growth (%, y-o-y)	Total deposits	Growth (%, y-o-y)
2,01,523	11	2,18,018	11
175,255	30	2,34,092	16
61,326.98	6	87,362	9
43,948	7	52,399	10
28,061	36	25,381	34
	(₹ crore) 2,01,523 175,255 61,326.98 43,948	(₹ crore)     (%, y-o-y)       2,01,523     11       175,255     30       61,326.98     6       43,948     7	(₹ crore)     (%, y-o-y)     deposits       2,01,523     11     2,18,018       175,255     30     2,34,092       61,326.98     6     87,362       43,948     7     52,399

Source: BSE, banks

Karnataka Bank

said it took a

conscious decision

not to grow large

corporate book

due to lower yield

and aggressive

competition

account ratio stood at 32.97% as on March 31, flat compared with last year.

City Union Bank reported its total advances at ₹43,948 crore as on March end, up 7% YoY. The bank's total deposits, however, grew at a higher rate of 10% during Q4

to stand at ₹52,399 crore as on March 31, of which CASA deposits were at ₹15,658

"City Union Bank's lower credit growth was anticipated as even in last quarter (Q3FY23) their loan growth numbers were below under industry average. The bank's

By Order of the Board

(Abhishek Pandey)

Company Secretary & Compliance Officer

Membership No. ACS-21958

JKE.

management had said that

there was a lag in deposit

growth in Q3 so the bank will not pursue aggressive credit growth. Further in Q4, deposit growth of banks has been higher than Q3 and it is likely to continue, as banks are offering fixed rate deposit at higher

rate of 7% and more. We are expecting further rise in deposit rates as liquidity is tight presently," said Cyril Charly, research analyst at Geojit Financial Services.

Meanwhile, YES Bank reported 11.3% YoY credit growth for O4FY23, with its total advances touching ₹2.01

trillion as on March 31. Gross retail disbursements were at ₹12,847 crore during the quarter ended March as against ₹10,201 crore a year ago. The bank's Q4 loan growth was below the industry average of 15.9%.

YES Bank's deposits rose inline with credit growth, at 10.6% YoY to ₹2.18 trillion as on March end. CASA ratio, however, moderate slightly on year to 31% in Q4FY23 as against 31.8% in O4FY22. In a recent conversation

with FE, South Indian Bank chief Murali Ramakrishna had said CASA ratio hasn't grown well from October onwards for many of the banks and that banks are also witnessing customers moving their cash from low-cost current accounts and savings accounts to attractive deposit schemes. "With every bank increasing their deposit rate, people are finding more income coming from deposit product, therefore, we are seeing traction happening in deposit growth but CASA in that process is suffering a little bit, but we are sure of retaining about 33% level for fiscal (FY23)... for coming year we are targeting at least 35% by March 2024,"

# **ESAF SFB to explore** opportunity to be a universal bank

**AJAY RAMANATHAN** Mumbai, April 5

**ESAF SMALL FINANCE** Bank will explore the opportunity to become a universal bank once the listing process is over, said managing director and chief executive officer

will also explore the opportu-

geographic focus and customer segment will be the same,"

finance bank

file its draft red herring prospectus (DRHP) in next few

It had initially filed the draft paper with Sebi in July

May and we will file (DRHP) after that. We cannot predict anything now, but we want to complete it in FY24," he said. Given its roots in the micro-

get finalised in the first week of

finance segment, more than 70% of its loan book is exposed towards microfinance borrowers. The lender offers gold loans, agricultural loans, mortgage loans, and loans to micro,

small medium-sized enterprises. Currently,

the Thrissurbased bank's gross loan portfolio stands at ₹16,330 crore and its deposit base stands at ₹14,665 crore. bank The expects its loan book and

deposit book to

grow at a com-

pound annual growth rate of 25-30%. It is focussing on garnering more current account savings account (CASA) deposits going ahead. The lender aims to increase CASA deposits to 30% of overall deposits from 21%.

The gross non-performing asset ratio stood at 7.2% as on December 31, and this is expected to fall sharply going

ahead.

**GQG CIO** Rajiv Jain says \$2-billion Adani bet a 'multibagger'

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

**FINANCIAL EXPRESS** 



**BRIAN CHAPPATTA** & KAI SCHULTZ April 5

RAJIVJAIN, ONE of the biggest names in emerging-market investing, cut across the grain last month when he bought almost \$2 billion worth of Adani Group stock. Now, the chief investment officer of GQG Partners has grand predictions for his bet on the embattled Indian conglomer ate: a return in excess of 100%.

"These could be multibaggers" over five years, Jain said in an interview at Bloomberg's New York headquarters. The term comes from mutual fund manager Peter Lynch's book and describes an investment that could at least double.

The Florida-based firm has become the highest-profile champion of billionaire Gautam Adani's battered empire. The group lost as much as \$153 billion in market value after a US short-seller accused the conglomerate of stock-price manipulation and fraud in a report released earlier this year But those allegations,

which the Adani Group denies, haven't deterred Jain. The Hin denburg report read like a "10 year-old newspaper," Jain said. Though the allegations might look messy "from a Western point of view," he said, they're perhaps less problematic in the Indian business context. Over a 30-year investment career, "I've yet to come across a perfect company," he said. In particular, Jain pointed

to Adani's coal mining assets, his data centers and his majority stake in Mumbai's busy international airport as signs of a healthy business. -BLOOMBERG

# Bandhan Bank's total deposits rise 12.2% in Q4

BANDHAN BANK'S TOTAL deposits in the fourth quarter of last fiscal stood at ₹1,08,069 crore, registering a rise of 12.2% over the same

Name of Work

1 Deployment of staff for operation and Minor

NIT along with all terms and conditions is available on website.

period a year ago, the private ing a year-on-year growth of lender said.

Ramakrishna said.

Loans and advances during the quarter ended March 31 was at ₹1,09,112 crore, reflect-

DELHI JAL BOARD: GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW) IX

RITHALA STP SEC-11 ROHINI DELHI-110085

PRESS NIT No. 21 EE (SDW) IX (2022-23)

Cost

Item Rate

Money

(In Rs.)

54,000/-

2023 DJB 239191 1

Collection efficiency of microlending during the period under review came in at

receipt of tender

through

e-procurement solution

11:15 AM

(Er. Deepak Rohilla)

EE (SDW) IX


9.8%, it said in a release.

Information Technology Department, Corporate Office, Chennai Indian Bank, a leading Public Sector Bank, has floated following RFPs in GeM portal

 RFP for renewal of AMC services for Hardware and ATS services for software licenses in virtualised

Make TABs for the Branches of Bank Interested parties may refer Bank's Website: https://www.indianbank.in/tenders & GeM portal

for details. கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்



நாளிதழில் வெளியிடப்பட்ட மதிப்பீடு தொகை ரூ.24.51 கோடி என திருத்தி வாசிக்கவும் மற்ற நிபந்தனைகளில் எவ்வித மாற்றம் ஏதும் இல்லை. இருகூர் பேரூராட்சி, Bossi Coggnist. செ.ம.லொ.இ.2038/ஒப்பங்கப்பள்ளி/2023

दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स टावनकोर लिमिटेड FACT THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LIMITED NONEERS IN PROGRESS (A Government of India Enterprise) Regd. Office: Eloor CORPORATE MATERIALS, PD ADMINISTRATIVE BUILDING UDYOGAMANDAL, COCHIN, KERALA — 683 501 Phone: (0484)-256-8633/8260, 2545196 E-mail: deepu.cn@factltd.com; noble@factltd.com; Website: http://www.fact.co.in

E-TENDER FOR CLEARING, HANDLING & TRANSPORTATION OF BAGGED PRODUCTS AT KOLHAPUR RAILHEAD IN MAHARASHTRA [ENQUIRY NO. MM/182/E27144 dated 05.04.2023]

Online bids (two-cover system) are invited for undertaking the work of Clearing, Handling and Fransportation of bagged products at Kolhapur Rail Head (RH) in Maharashtra for a period of 2 years, through https://eprocure.gov.in portal. Any change/Extensions to this tender will be nformed only through our website/CPP e-procurement portal and will not be published in Due date/time for submission of bids: 20.04.2023 / 3.00 PM

SM (Mat) T&S/c

Hindi version is published in our website www.fact.co.in. Date: 05.04.2023 **E-AUCTION SALE NOTICE** 

**COX & KINGS FINANCIAL SERVICE LIMITED** (UNDER LIQUIDATION) Liquidator: Mr. Pardeep Kumar Sethi Liquidator Address: RBSA Restructuring Advisors LLP 1121, Building No.11, Solitaire Corporate Park, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai, Maharashtra - 400 093 E-Auction

Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of Auction 10.05.2023 from 11.00 a.m. to 12.00 p.m. (With unlimited extension of 5 minutes each)

Sale of Assets owned by Cox & Kings Financial Service Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate of Cox & Kings Financial Service Limited in possession of the Liquidator, appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai vide order dated 11.10.2022. The sale of properties will be done by the undersigned through the e-auction platform https://ncltauction.auctiontiger.net

Incremental Reserve Price Earnest Money Deposit (EMD) Plant & Machinery - majorly being IT Assets Rs. 6,56,000/-Rs. 10,000/situated at A/5. Unit no 201 to 207 Krishna Complex, Opposite Tata Motors, Maharashtra, 421302

Terms and Condition of the E-Auction are as under: Interested applicants may refer to the complete e auction Process Document containing complete auction information and terms and conditions including EMD requirement etc. available on https://ncitauction.auctiontiger.net.or.may.request.through.e-mail.to.ip.ckfsl@rbsa.in. The Liquidator has the right to accept or cancel or extend or modify any terms and conditions of E-

Liquidator has the right to reject any of the bids without assigning any reasons. The bidders intending to participate in E-Auction shall submit their Expression of Interest (E0I) along with KYC & other documents (as per formats given in the Process Document) to the liquidator on or before 20th April, 2023. The interested bidders shall submit evidence for EMD Deposit of 10% of reserve price on or before 5th May, 2023.

Auction or the liquidator can cancel the E- Auction or any item of E Auction at any time. The

E Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" and "NO COMPLAINT" basis only. The physical possession of entire lot of Plant and Machinery comprised above shall have to be

taken within 15 days of payment of entire Sale consideration.

Mr. Pardeep Kumar Sethi Date: 06.04.2023 IBBI/IPA-001/IP-P00711/2017-2018/11265

## Exchange at www.bseindia.com. The Company would be providing remote e-voting facility to its members to enable "STOP CORONA: Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene them to cast their votes on the resolutions set out in the Notice of the Postal Ballot. The Company has engaged the services of CDSL for providing this facility to the Members. Detailed instructions in this regards will form part of the Notice of the Postal Ballot. The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company **MO2CHIP**

ISSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 06 (2023-24)

https://govtprocurement.delhi.gov.in

Regd. Office: 7th Floor, My Home Twitza, TSIIC Hyderabad Knowledge City, Hyderabad, Telangana - 500081, India. CIN: L31909TG1999PLC032184 Email: investorrelations@moschip.com; www.moschip.com Phone: +91-040-66229292, Fax: +91-040-66229393

MOSCHIP TECHNOLOGIES LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM) & E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of MosChip Technologies Limited ("the Company") will be held on Wednesday, the 26th day of April, 2023 at 10.00 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business set out in the Notice dated 28" March, 2023 ("the Notice"). The Special Businesses as set out in the Notice will be transacted through voting by electronic

The EGM convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with circular dated 08" April, 2020 and 05" May, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 ("Listing Regulations") read with SEBI Circular dated 12th May, 2020, without the physical presence of the members at a common venue.

The MCA and SEBI has permitted listed companies to send the Notice of EGM only by email to shareholders in view of the prevailing Covid-19 pandemic situation and difficulties involved in dispatch of physical copies. The Notice of EGM will be sent to the shareholders electronically to the email ID's registered by them with the depository participant/Company.

The instructions for joining the EGM and the manner of participation in the remote e-voting during EGM would be provided in the Notice of the EGM. Members participating through VC/OVAM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Manner of registering/updating email addresses: Shareholders holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email ID's with the

Company are requested to register / update their email ID with the Company at investorrelations@moschip.com or with KFin Technologies Limited at einward.ris@kfintech.com with details of folio number and attaching a selfattested copy of PAN card. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email ID with their

respective Depository Participant. Process for those shareholders whose email IDs are not registered with depositories for procuring user ID and

password and registration of email ID's for e-voting for the resolutions set out in this notice. (1) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the

share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy) by email to investorrelations@moschip.com. (2) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLIENT ID (16 digit DPID + Client ID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account Statement, PAN (self-attested scanned copy) by email to investorrelations@moschip.com.

Alternatively member may send an email request to evoting@kfintech.com for obtaining user ID and password by providing the details mentioned in point (1) or (2) as the case may be.

The Company has engaged the services of KFin Technologies Limited ("KFintech") to provide e-voting facility to its members. The Company has appointed M/s B S S & Associates, Practicing Company Secretaries, to act as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of e-voting 23" April, 2023, Sunday, at 9:00 A.M. (IST) End of e-voting 25th April, 2023, Tuesday, at 5:00 P.M. (IST)

During this period, members of the Company, holding shares either in physical or in dematerialized mode as on the cut-off date (14" April, 2023) may cast their vote electronically. Any person, who becomes Member of the Company after sending the Notice of the EGM by email and holding

shares as on the cut-off date i.e. 14th April, 2023, may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com or investorrelations@moschip.com. However, if a person is already registered with KFinTech for remote e-Voting then existing user ID and password can be used for casting vote.

Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by KFintech after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the EGM may participate in the EGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the EGM; and c) a person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the EGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the EGM.

The Notice of the EGM is available on the website of the Company at www.moschip.com and the website of KFintech at www.kfintech.com and also on the website of BSE Limited at www.bseindia.com.

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of https://evoting.kfintech.com/(KFintech Website) or contact Mr. V Raghunath, Manager - RIS, at evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications. Members are requested to go through the Notes set out in EGM Notice and in particular, instructions for joining the

EGM, manner of casting vote through Remote e-voting during the EGM and attending the EGM through VC/OVAM. BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Hyderabad CS Suresh Bachalakura Date: 28" March, 2023

Mr. V S Ranganathan (DIN: 02786224)

For TTI Enterprise Limited

For Proposed Transferees/ Promoters Acquirers

Ms. Sonal Atal

(DIN: 09308801)

Independent Director

Company Secretary

New Delhi

K Paul Thomas. "Once we do the listing, we nity to become a universal bank. Even if we become a universal bank, our

he said. The small

intends to complete its initial public offering 2023-24 (April-March). It K Paul Thomas is planning to re-

2021. While the market regulator had approved the IPO in the same year, the lender could not complete the process within the stipulated timeline. "We are just starting the

process. Our balance sheet will

98.5%, compared with 98% a year ago. The Kolkata-based bank

said its current account, sav-

ings account (CASA) in the quarter ended March stood at ₹42,471 crore, representing a growth of 6% over the corresponding period a year ago. Bulk deposits were at ₹31,125 crore, compared with

₹21,890 crore in the fourth quarter of 2021-22, registering a growth of 42.2%. The loan coverage ratio

(LCR) of the bank stood at 157% during the reporting period, the release added.

RFP for Procurement of 1050 numbers of Samsung